



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 उप-खंड (ii)  
PART II—Section 3 Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 120] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 19, 1979/फाल्गुन 28, 1900  
No. 120] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 19, 1979/PHALGUNA 28, 1900

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

आवृत्ति

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1979

का. आ. 145 (अ).—दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति से एतद्वारा, श्री प्यारे लाल शर्मा, भूतपूर्व विधान सभा सदस्य की अभिकीर्तित हत्या के सम्बन्ध में पुलिस स्टेशन मिहानी गेट, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश राज्य में पंजीकृत अपराध संख्या 735, दिनांक 28-11-1978 के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 302 के अधीन दण्डनीय अपराधों तथा उक्त अपराध के सम्बन्ध में या उससे सम्बन्धित प्रयत्नों,

1320 GI/78

(261)

दुष्प्रेरणों और षड्यंत्रों तथा उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न हुई उसी कार्रवाई के दौरान किए गए अन्य अपराध का अन्वेषण करने के लिए, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना की शक्तियाँ एवं अधिकारिता का समस्त उत्तर प्रदेश राज्य में विस्तार करती

[संख्या 228/3/79-ए.बी. (2)]

एस. के. लाल, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Admn. Reforms)

## ORDER

New Delhi, the 19th March, 1979

**S.O. 145 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5, read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government, with the consent of the Government of the State of Uttar Pradesh hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Uttar Pradesh for the investigation of offences punishable under section 302 Indian Penal Code (45 of 1860) and attempts, abetments and conspiracies in relation to, or in connection with, the said offence and any other offence committed in the course of the same transaction arising out of the same facts, in regard to Crime No. 735 dated the 28th November, 1978 registered at the Police Station Sihanigate, Ghaziabad in the State of Uttar Pradesh relating to alleged murder of Shri Pyare Lal Sharma Ex-MLA.

[No. 228/3/79-AVD. II]

S. K. LALL, Jt. Secy.